



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

Result for the post of Executive (Signal & Telecommunication) against Advt No. 01/DR/2025

1. Based on the performance in the Computer Based Test (2nd Stage CBT) held on 13th December 2025 for the post of Executive (Signal & Telecommunication), candidates whose roll numbers have been mentioned in Annexure-I, have provisionally been empaneled for Document Verification and Medical Examination in the order of merit as per notified community-wise vacancies and following extant reservation rules.

2. Community-wise/category-wise cut-off marks are as under:

Community/Category	Cut-off Marks
Un-reserved (UR)	72.8571
Scheduled Caste (SC)	60.7563
Scheduled Tribe (ST)	54.2017
Other Backward Class (OBC) (Non-Creamy Layer)	71.5966
Economically Weaker Section (EWS)	69.8319
Persons with Benchmark Disability (PwBD)	48.1513
Ex-Servicemen	40.0840


Note: The above Ex-Servicemen cutoff is not applicable to Disabled Ex-Serviceman/ dependent of Ex-serviceman killed in action.

3. An e-mail and SMS is also being sent to provisionally empaneled candidates on their registered e-mail id and mobile number to download e-admit card for Document Verification (DV) wherein complete details of date & time of DV, Medical Examination and detailed instructions will be mentioned.
4. In case candidate does not report for DV/Medical Examination on the stipulated date and time as mentioned in the e-admit card, his/her candidature will be treated as cancelled. DFCCIL will not entertain any request for change of date and time schedule of DV/Medical Examination.
5. The candidates provisionally empaneled for DV should produce all the documents in original, one set of duly self-attested copies & scanned copies as per Annexure –II of this Notice. Candidates are also required to fill their details in the online recruitment portal (preferably in Windows) link of which will be provided in due time.
6. Candidates may note that after completion of DV, they will be sent for Medical Examination normally on the next day of DV. In case, the DV/Medical Examination could not be completed on the specified date, it will be rescheduled on the next available date at the same venue. Candidates are requested to come prepared accordingly. No hotel charges and other incidental expenses incurred, if any, will be reimbursed.
7. Filling up of vacancies is solely at the discretion of the Management based upon the suitability of candidates and administrative requirements. No claim will arise for appointments, if some of the vacancies are not filled due to unsuitability / insufficient number of candidates etc.
8. The candidature of the shortlisted candidates is purely provisional and subject to being found suitable in DV and Medical Examination and is liable to be cancelled, at any stage of recruitment process or thereafter, in case of any inconsistency/deficiency in the data furnished or any malpractice on part of candidates coming to notice of DFCCIL. It may be noted that merely shortlisting or calling a candidate for DV/Medical Examination does not entitle him/her in any way to an appointment in the DFCCIL.

9. While every care has been taken in preparing the provisional panel of candidates shortlisted for DV /Medical Examination, DFCCIL reserves the right to rectify any inadvertent error(s) or typographical/printing mistake(s). DFCCIL regrets its inability to entertain any correspondence from unsuccessful candidates.
10. **No Stand-by List or Panel will be maintained.** (Refer to para 11 (ii) & (iii) of detailed Advertisement No. 01/DR/2025).
11. **Link for checking Score Card will be provided shortly. Candidates are advised to regularly visit the official website of DFCCIL for regular updates and information.**

Important: Beware of the touts who may misguide the candidates with false promises of getting them selected for the job by illegal means. The recruitment process of DFCCIL is fully computerized & transparent and the selection is based purely on merit. Please remember that seeking illegal methods for recruitment is a serious crime and legal action may be taken against any candidate found indulged in such activities besides debarring the candidate for current and all future recruitments of DFCCIL.

Date: 13/Feb/2026


13/02/2026
DGM/HR/DFCCIL

The Roll numbers of the provisionally empaneled candidates for Document Verification/Medical Examination for the post of Executive (Signal & Telecommunication) against Advt No. 01/DR/2025 are given below in the order of merit. The candidates shall report at Room No. 721, 7th floor, DFCCIL Corporate Office Complex, Sector-145, Noida, Uttar Pradesh – 201306 by 09:30 AM positively for the purpose of Document Verification on scheduled dates mentioned below and in their e-admit card.

SN	Roll Number	Date of Document Verification	Date of Medical
1	251631350227	14-Apr-26	15-Apr-26
2	251632350311	14-Apr-26	15-Apr-26
3	251632350324	14-Apr-26	15-Apr-26
4	251632350163	14-Apr-26	15-Apr-26
5	251631350090	14-Apr-26	15-Apr-26
6	251526350087	14-Apr-26	15-Apr-26
7	251527350004	14-Apr-26	15-Apr-26
8	251632350430	14-Apr-26	15-Apr-26
9	251324350043	14-Apr-26	15-Apr-26
10	251631350248	14-Apr-26	15-Apr-26
11	251122350091	14-Apr-26	15-Apr-26
12	251631350215	14-Apr-26	15-Apr-26
13	251632350094	14-Apr-26	15-Apr-26
14	251631350172	15-Apr-26	16-Apr-26
15	251631350222	15-Apr-26	16-Apr-26
16	251631350039	15-Apr-26	16-Apr-26
17	251527350169	15-Apr-26	16-Apr-26
18	251527350006	15-Apr-26	16-Apr-26
19	251631350142	15-Apr-26	16-Apr-26
20	251527350144	15-Apr-26	16-Apr-26
21	251632350108	15-Apr-26	16-Apr-26
22	251527350118	15-Apr-26	16-Apr-26
23	251631350071	15-Apr-26	16-Apr-26
24	251122350039	15-Apr-26	16-Apr-26
25	251632350137	15-Apr-26	16-Apr-26
26	251324350053	15-Apr-26	16-Apr-26
27	251527350030	16-Apr-26	17-Apr-26
28	251527350125	16-Apr-26	17-Apr-26
29	251526350181	16-Apr-26	17-Apr-26
30	251526350149	16-Apr-26	17-Apr-26
31	251632350540	16-Apr-26	17-Apr-26
32	251631350159	16-Apr-26	17-Apr-26
33	251526350119	16-Apr-26	17-Apr-26
34	251632350413	16-Apr-26	17-Apr-26
35	251632350402	16-Apr-26	17-Apr-26
36	251632350333	16-Apr-26	17-Apr-26

37	251632350079	16-Apr-26	17-Apr-26
38	251632350417	16-Apr-26	17-Apr-26
39	251527350009	16-Apr-26	17-Apr-26
40	251631350204	17-Apr-26	18-Apr-26
41	251632350269	17-Apr-26	18-Apr-26
42	251632350083	17-Apr-26	18-Apr-26
43	251526350061	17-Apr-26	18-Apr-26
44	251527350048	17-Apr-26	18-Apr-26
45	251122350082	17-Apr-26	18-Apr-26
46	251526350146	17-Apr-26	18-Apr-26
47	251632350268	17-Apr-26	18-Apr-26
48	251526350161	17-Apr-26	18-Apr-26
49	251632350256	17-Apr-26	18-Apr-26
50	251632350431	17-Apr-26	18-Apr-26
51	251632350475	17-Apr-26	18-Apr-26
52	251324350012	20-Apr-26	21-Apr-26
53	251632350244	20-Apr-26	21-Apr-26
54	251526350036	20-Apr-26	21-Apr-26
55	251631350122	20-Apr-26	21-Apr-26
56	251631350243	20-Apr-26	21-Apr-26
57	251632350516	20-Apr-26	21-Apr-26
58	251632350040	20-Apr-26	21-Apr-26
59	251324350088	20-Apr-26	21-Apr-26
60	251631350037	20-Apr-26	21-Apr-26
61	251324350004	20-Apr-26	21-Apr-26
62	251122350041	20-Apr-26	21-Apr-26
63	251631350004	20-Apr-26	21-Apr-26
64	251631350147	21-Apr-26	22-Apr-26
65	251632350317	21-Apr-26	22-Apr-26
66	251632350249	21-Apr-26	22-Apr-26
67	251526350182	21-Apr-26	22-Apr-26
68	251631350296	21-Apr-26	22-Apr-26
69	251632350192	21-Apr-26	22-Apr-26
70	251632350212	21-Apr-26	22-Apr-26
71	251632350059	21-Apr-26	22-Apr-26
72	251631350023	21-Apr-26	22-Apr-26
73	251631350074	21-Apr-26	22-Apr-26
74	251632350506	21-Apr-26	22-Apr-26
75	251632350023	21-Apr-26	22-Apr-26

दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की चेक लिस्ट Checklist of documents to be produced for Document Verification		कृपया (✓) चिन्हित करें Please Tick (✓)Mark	
		मूल Original	स्वप्रमाणित फोटो कॉपी Self-Attested Xerox
1.	जन्मतिथि (डीओबी) के सत्यापन के लिए मैट्रिक/माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रमाणपत्र और अंकतालिका, (इसे प्रस्तुत करने में असफल होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी) Matriculation/Secondary (10th) Examination Certificate and Marksheet for verification of Date of Birth (DoB) (failure to present the same will render the candidature of the candidate being cancelled)		
2.	एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। Certificate for SC/ST/OBC-NCL/EWS/PwBD/Ex-servicemen candidates issued by Competent Authority in the prescribed format.		
3.	ओबीसी-एनसीएल आरक्षण का लाभ पाने के लिए ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को "नॉन-क्रीमी लेयर" स्थिति प्रमाणित करने वाला एक वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है जो दस्तावेज सत्यापन के समय एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। OBC-NCL candidates are required to submit a valid OBC-NCL certificate certifying "Non-Creamy Layer" status which shall not be older than one year at the time of Document Verification, to get the benefit of OBC-NCL reservation.		
4.	ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ पाने के लिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जमा कराना होगा जो एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। EWS candidates require to submit the valid Income and Asset Certificate which shall not be older than one year at the time of Document Verification to get the benefit of EWS reservation.		
5.	संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान/आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री बोर्ड द्वारा जारी अंतिम प्रमाण पत्र (निर्धारित योग्यता के अनुसार)। Final Certificate issued by the respective University/Institute/Board of ITI/Diploma/Degree (As per prescribed qualification).		
6.	संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड द्वारा जारी आईटीआई / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टर / सभी वर्षों की मार्क शीट (निर्धारित योग्यता के अनुसार)। Mark Sheets of all semesters/years of ITI/Diploma/Degree course (as per prescribed qualification) issued by the respective University/Institute/Board.		
7.	यदि किसी विश्वविद्यालय ने अंकों के स्थान पर ग्रेड (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई/डीजीपीए या लेटर ग्रेड) प्रदान किया है, तो उम्मीदवार को संस्थान से प्रतिशत रूपांतरण फॉर्मूला प्रदान करना होगा। जहां संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा सीजीपीए/डीजीपीए आदि को प्रतिशत में बदलने के लिए कोई रूपांतरण फॉर्मूला नहीं दिया गया है, तो उम्मीदवार को इसे प्रमाणित करने वाले अपने संस्थान से एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। If any University has awarded grades (CGPA/OGPA/CPI/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute. Where no conversion formula is given by the Institution/University to convert CGPA/ DGPA etc. into percentage, the candidate shall have to submit a certificate from his/ her Institution certifying the same.		
8.	डिग्री/प्रमाणपत्र में विशेषज्ञता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो उम्मीदवार को कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से प्रिंसिपल/रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगा हुआ एक प्रमाण पत्र लाना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से उस विशेषज्ञता का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उक्त डिग्री/डिप्लोमा हासिल किया है।		

	The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma.		
9.	<p>ऐसे मामले में जहां प्रोविज़नल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविज़नल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंसिपल / रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा।</p> <p>In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate/marksheet and certifying the particulars of the provisional degree/marksheet.</p>		
10.	<p>शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात् मूल या प्रोविज़नल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज़ सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकेतिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p>The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt. for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of Document Verification.</p>		
11.	<p>यदि डिग्री/डिप्लोमा/ दूरस्थ शिक्षा प्रमाणपत्र /अंशकालिक/पत्राचार शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए हैं, तो उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/संस्थान को दी गई मंजूरी भी प्रस्तुत करनी होगी कि उपरोक्त डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रासंगिक अवधि के लिए प्रासंगिक वैधानिक निकायों द्वारा केंद्र सरकार में रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त हैं।</p> <p>In case Degrees/Diplomas/Certificates awarded through Distance Learning/Part Time/Correspondence Mode of Education, then candidate shall also produce approval given to the University/Institute that the above Degree/Diploma/ Certificates are recognized for employment in Central Government by the relevant Statutory Bodies for the relevant period.</p>		
12.	<p>यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज़/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना होगा।</p> <p>If any document/certificate furnished is in a language other than Hindi or English, a transcript of the same duly attested by a Gazetted Officer or Notary is to be submitted.</p>		
13.	<p>उम्मीदवार जो सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में नियमित आधार पर कार्यरत हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से मूल रूप से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें विफल होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। डीएफसीसीआईएल के विभागीय/नियमित कर्मचारियों को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे सतर्कता और डी एंड एआर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>Candidates who are employed on regular basis in Government/Semi-Government/Public Sector Undertaking/Autonomous Bodies are required to produce a "No Objection</p>		

	Certificate” from their present employer in original at the time of Document Verification failing which candidature of the candidate is liable to be cancelled. <u>Departmental/Regular employees of DFCCIL</u> are not required to produce “No Objection Certificate”, but shall produce Vigilance and D&AR Clearance.		
14.	<p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:</p> <p>(a) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवामुक्ति पर्ची/एनओसी जिसमें डिफेन्स में सेवा के वर्षों की संख्या दर्शाई गई हो। इस प्रयोजन के लिए, कृपया विस्तृत विज्ञापन देखें।</p> <p>(बी) यदि लागू हो तो विस्तृत विज्ञापन के अनुलग्नक-I(डी) के अनुसार रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।</p> <p>(सी) विस्तृत विज्ञापन के अनुलग्नक - I (ई) के अनुसार वचनबद्धता।</p> <p>(डी) इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने रक्षा सेवाओं में अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में आवश्यक योग्यता/व्यापार हासिल कर लिया है, उन्हें उचित समकक्षता प्रमाण पत्र लाना होगा।</p> <p>(इ) मृतक सैनिक के जिला सैनिक बोर्ड/यूनिट हेड क्वार्टर द्वारा जारी किया गया डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट/डिपेंडेंसी आइडेंटिटी कार्ड (एक्शन में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के मामले में)</p> <p>For Ex-servicemen:</p> <p>(a) Discharge Certificate/NOC from the Competent Authority indicating the number of years of service in Defence, if discharged from Army/Navy/Air Force. For this purpose, please refer detailed Advertisement.</p> <p>(b) Serving Defense Personnel Certificate as per Annexure -I(D) of detailed Advertisement, if applicable.</p> <p>(c) Undertaking as per Annexure – I(E) of detailed Advertisement.</p> <p>(d) Also, the Ex-serviceman candidate who have acquired the Essential Qualification/Trade as part of their training in Defense Services should bring appropriate equivalency certificate.</p> <p>(e) Dependency Certificate/ Dependency Identity Card issued by issued from Zilla Sainik Board/Unit Head Quarter of the deceased Serviceman (In case of Dependent of the Servicemen killed in action).</p>		
15.	<p>बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता प्रमाण पत्र। इस प्रयोजन के लिए, कृपया विस्तृत विज्ञापन देखें।</p> <p>Disability certificate in prescribed form issued by Competent Authority in respect of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) Category. For this purpose, please see detailed Advertisement.</p>		
16.	<p>दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जारी किए गए ई-प्रवेश पत्र का पूरा प्रिंट आउट।</p> <p>The complete print out of e-admit card issued for Document Verification.</p>		
17.	<p>कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) और उसके बाद की परीक्षाओं यानी पीईटी/सीबीएटी, यदि कोई हो, के लिए उम्मीदवार को जारी किए गए ई-प्रवेश पत्र का पूरा प्रिंट आउट।</p> <p>The complete print out of e-Admit Card issued to the candidate for the Computer Based Tests (CBT) and subsequent exams i.e. PET/CBAT, if any.</p>		
18.	पांच रंगीन पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो / Five coloured Passport Size latest Photographs		
19.	आधार कार्ड / Aadhaar Card		
20.	<p>स्थायी खाता संख्या (पैन)। यदि आवंटित नहीं किया गया है, तो आवेदन की पावती रसीद की फोटोकॉपी संलग्न करें।</p> <p>Permanent Account Number (PAN). If not allotted, attach photocopy of applied for acknowledgement receipt.</p>		
21.	निर्दिष्ट अनुसार कोई अन्य प्रमाणपत्र / Any other certificate, as specified		

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा
Performa for reimbursement of travelling expenses for SC/ST Candidates

- 1) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से यात्रा करने पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खर्च किया है।

I hereby declare that I have incurred the expenses on travelling for the purpose of DV as per details given below

SN.	Journey Details				Mode of journey	Expense (In Rs.)
	Starting place	End Place	Start date	End Date	Train/Bus/Air	
(A) आगे की यात्रा के लिए / For Onward Journey						
(B) वापसी यात्रा के लिए / For Return Journey						
Total						

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने वास्तव में रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन से सबसे छोटे मार्ग से रेल/बस द्वारा यात्रा की है, जो मेरे घर/निवास स्थान के सबसे नजदीक है और दस्तावेज सत्यापन के स्थान से वापस उसी स्टेशन तक जाता है।/

I certify that I have actually performed the journey by rail/bus by shortest route from Railway Station / Bus station which is nearest to my home / place of residence to the place of Document Verification and back to the same station

OR

- 2) मैं उपरोक्त उद्देश्य के लिए किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करना चाहता/चाहती।

I do not want to claim any reimbursement for the above purpose

- 3) उपर्युक्त 1 के संदर्भ में मैंने इस प्रोफार्मा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए हैं।

In case of 1 above, I have enclosed the following documents along with this Performa:

- स्व-प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र / Self-attested caste certificate
- स्व-प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र / Self-attested Copy of address proof
- आगे की यात्रा के लिए स्व-सत्यापित मूल टिकट संलग्न है। / Self-attested original ticket for onward journey performed is enclosed

आवेदित पद/ Post applied for:	उम्मीदवार का नाम /Name of the candidate:
अनुक्रमांक /Roll No. :	हस्ताक्षर /Signature :
दिनांक /Date:	

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु /For office use only

पारित राशि /Amount passed	वित्त अधिकारी /Finance Official
Rs.	Name / नाम :
	Signature / हस्ताक्षर:

प्राप्त कुल राशि Total amount received	उम्मीदवार के हस्ताक्षर Signature of Candidate
Rs.	
